



मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 8 जनवरी, 2014 (पौष 18, 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 34 बजे समवेत हुई.

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री के.डी. देशमुख) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. चतुर्दश विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों का स्वागत तथा मौन धारण

चतुर्दश मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रथम बैठक के पावन अवसर पर अध्यक्ष महोदय द्वारा ये विचार व्यक्त किये गये :-

“आज हम एक महत्वपूर्ण एवं पुनीत अवसर पर एकत्रित हुए हैं. सर्वप्रथम मैं, चतुर्दश मध्यप्रदेश विधान सभा के लिये नव निर्वाचित सदस्यों का स्वागत करता हूँ. संविधान के अन्तर्गत यह एक नई विधान सभा निर्वाचित हुई है, जिसके ऊपर प्रदेश और जनता के कल्याण का महान और गुरुत्तर दायित्व है. यह उपयुक्त होगा कि अपनी कार्यवाही आरंभ करने से पहले हम सब, जैसी कि ऐसे अवसर पर परंपरा रही है, खड़े होकर एक मिनट का मौन रखें”.

(परम्परानुसार सदस्यों द्वारा एक मिनट के लिए मौन धारण किया गया.)

3. चतुर्दश विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूची पटल पर रखी जाना.

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, श्री राजकुमार पांडे, प्रमुख सचिव, विधान सभा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित की गई अधिसूचना, जिसमें आम चुनाव में चतुर्दश मध्यप्रदेश विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूची दी गई है, पटल पर रखी.

4. सभापति तालिका की घोषणा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया:-

1. श्री मानवेन्द्र सिंह
2. श्री कैलाश चावला
3. श्रीमती अर्चना चिटनिस
4. कुमारी निर्मला भूरिया
5. श्री रामनिवास रावत
6. डॉ. गोविन्द सिंह

5. शपथ / प्रतिज्ञान

अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि, "सर्वप्रथम सदन के नेता, (मुख्यमंत्री) शपथ ग्रहण करेंगे. तदुपरांत, मंत्रिमण्डल के सदस्यगण एवं सभापति तालिका के लिए नियुक्त सदस्यगण शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे. तत्पश्चात्, शेष माननीय सदस्यगण प्रमुख सचिव महोदय द्वारा पुकारे जाने पर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार आसंदी के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे और उनकी टेबल पर रखी सदस्य नामावली में अपने हस्ताक्षर करेंगे. जो माननीय सदस्यगण निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक अनुसार शपथ नहीं ले सकेंगे या प्रतिज्ञान नहीं कर सकेंगे, वे अन्त में पुनः पुकारे जाने पर वैसा कर सकेंगे."

तदनुसार, माननीय सदस्यों (सदन के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, राज्यमंत्री एवं सभापति तालिका के लिये नियुक्त सदस्यगण सहित) द्वारा शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान किया गया तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये.

सभापति महोदय (श्रीमती अर्चना चिटनिस) पीठासीन हुईं.

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री के.डी. देशमुख) पीठासीन हुए.

(अपरान्ह 1.00 बजे से 2.38 बजे तक अन्तराल)

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री के.डी. देशमुख) पीठासीन हुए.

कुल 193 माननीय सदस्यगण द्वारा शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान किया गया तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये.

अपरान्ह 2.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी, 2014, (पौष 19, 1935) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:

दिनांक:- 8 जनवरी, 2014

**राजकुमार पांडे,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा**